

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 598]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 नवम्बर 2023 — अग्रहायण 9, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2023

शुद्धिपत्र

क्रमांक-08/चार/अधिसूचना/विसनि/2023/7919.— छत्तीसगढ़ विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु एकजट पोल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी शुद्धिपत्र संख्या-576/एकजट/2023/एसडीआर/खण्ड-I, दिनांक 30 नवम्बर, 2023 का एतद्वारा सर्व-सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2023

शुद्धिपत्र

सं. 576/एक्जिट/2023/एसडीआर/खंड-1 .— आयोग के अधिसूचना सं. 576/एक्जिट/2023/एस.डी. आर/खण्ड-I दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 में शब्दों एवं आंकड़ों "7 नवंबर, 2023 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 7:00 बजे से 30 नवंबर, 2023 (गुरुवार) को अपराह्न 6.30 बजे के स्थान पर शब्दों एवं आंकड़ों "7 नवंबर, 2023 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 7:00 बजे से 30 नवंबर, 2023 (गुरुवार) को अपराह्न 5.30 बजे" को प्रतिस्थापित किया जाए।

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 30th November, 2023

CORRIGENDUM

No. 576/EXIT/2023/SDR/Vol.I.— In Commission's Notification No. 576/Exit/2023/SDR/Vol.I dated 31st October, 2023 for the words and figures "7:00 A.M on 7th November, 2023(Tuesday) and 6.30 PM on 30th November, 2023 (Thursday)" the words and figures 7:00A.M on 7th November, 2023(Tuesday) and 5.30 PM on 30th November, 2023 (Thursday) may be substituted.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Pr.Secretary.